



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 24.11.2020

1-थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मसाले की कम्पनी में चोरी करने वाला कम्पनी का कर्मचारी गिरफ्तार, निशादेही से 147 पेटी मसाले की बरामद।

दिनांक 23.11.2020 को वादी मौ० अतहर निवासी जामिया नगर दिल्ली द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध वादी की सेक्टर 09 स्थित कम्पनी के गोडाउन का ताला तोडकर 150 पेटी मसाले चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सेक्टर 20 नोएडा पर मु०अ०सं० 1075/2020 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये कम्पनी में आर०एस०एम० में पद पर कार्यरत अभियुक्त आकाश बंसल निवासी डिवाईन वैली सोसायटी वैशाली सेक्टर 6 गाजियाबाद फ्लैट नम्बर 6/2/27 से दिनांक 23.11.2020 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर उसके फ्लैट से घटना से सम्बन्धित 147 पेटी मसाले की बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.आकाश बंसल निवासी-फ्लैट नम्बर 6ध२ध२7 डिवाईन वैली सोसायटी वैशाली सेक्टर-6 गाजियाबाद

अभियोग का विवरण-

1.मु०अ०सं० 1075/2020 धारा 457,380,411 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा

बरामदगी का विवरण-

147 पेटी खडा गरम मसाला सम्बन्धि मु०अ०सं० 1075/2020 धारा 457,380,411 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा

2- थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 24.11.2020 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तगण 1.जफरूद्दीन पुत्र मोहम्मद सफी नि0 पुराना अलीवर्दीपुर थाना इकोटेक 03 गौतमबुद्धनगर , 2.जगदीश पुत्र धर्म सिंह नि0 सरफाबाद थान सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 442/2020 धारा 147, 148, 149, 327, 352,504,506 भादवि व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.जफरूद्दीन पुत्र मोहम्मद सफी नि0 पुराना अलीवर्दीपुर थाना इकोटेक 03 जीबीएन
- 2.जगदीश पुत्र धर्म सिंह नि0 सरफाबाद थान सेक्टर 49 जिला गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु.अ.सं. 442/2020 धारा 147,148,149,327,352,504,506 भादवि व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर

3- सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 02 पैडल पीली धातु ,02 अंगूठी ,02 कान के टाप्स पीली धातु व 02 मोतियों की माला व 200 रूपये बरामद।

दिनांक 24-11-2020 को थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्ता अंसारी खातुन पत्नी नजमुलहक नि0 ग्राम शेरबाबर थाना चाचल जिला मालदा पश्चिम बंगाल वर्तमान पता सेक्टर 46 नियर वोडा महादेव मन्दिर नोएडा थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्ध नगर को हाजीपुर रेडलाइट से 100 मीटर के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्ता वादिया के घर नौकरानी का कार्य करती थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

- 1.अंसारी खातुन पत्नी नजमुलहक नि0 ग्राम शेरबाबर थाना चाचल जिला मालदा पश्चिम बंगाल वर्तमान पता सेक्टर 46 नियर वोडा महादेव मन्दिर नोएडा थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्ध नगर

अभियोग का विवरण-

- 1-मु0अ0सं0 724/2020 धारा 381/411 भादवि

बरामदगी का विवरण-

1. 02 पैडल पीली धातु

2. 02 अंगूठी

3. 02 कान के टाप्स पीली धातु

4. 02 मोतियों की माला

5. 200 रूपये

4- थाना कासना पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.11.2020 को थाना कासना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 291/2020 धारा 323, 504, 354, 511,452 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त सुमित पुत्र ब्रहमपाल नि0 लडपुरा थाना कासना गौतमबुद्धनगर को विनोद भाटी गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुमित पुत्र ब्रहमपाल नि0 लडपुरा थाना कासना गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 291/2020 धारा 323,504,354,511,452 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 23.11.2020 की रात्रि में थाना कासना पुलिस को एक बच्चा यासीन लावारिस हालत में गांव सिरसा में घूमता हुआ पाया गया जो बहुत डरा हुआ था पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बच्चे ने अपना नाम यासीन पुत्र सलीम निवासी शेखर चिश्ती थाना डिवाई जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 8 वर्ष बताया थाना कासना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बच्चे के परिजनों के संबंध में जानकारी जुटाकर बच्चे के परिजनों को थाने पर बुलवाकर बच्चा सुपुर्द किया गया, बच्चे के परिजनों द्वारा बच्चे के मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रशंशा करते हुए धन्यवाद प्रकट किया।

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश शासन के महत्वपूर्ण यातायात माह अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की यातायात पुलिस लगातार एक्शन में, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में जनपद के यातायात को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर संचालित किया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम:

यातायात पुलिस के द्वारा चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम के तहत ऑटो रिक्शा चालकों का नेत्र परीक्षण एवं हस्ताक्षर अभियान किया गया आयोजित-

उत्तर प्रदेश सरकार के यातायात माह को जनपद में सफल बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर की यातायात पुलिस निरंतर स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित करते हुए जनपद के वाहन चालकों को जागरूक करने की बड़े स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर रही है ताकि जनपद के यातायात को और अधिक सुगम एवं सरल बनाया जा सके। यातायात पुलिस के साथ 3D विजन टीम द्वारा टैम्पो ऑटो रिक्शा चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया तथा 7x वेलफेयर टीम व ग्लोबल फाउंडेशन तथा शार्प एनजीओ द्वारा गोल चक्कर चौक पर मास्क वितरण कार्यक्रम भी आयोजित करते हुए वाहन चालकों को जागरूक करने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। यातायात पुलिस एवं संबंधित एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम व हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदस्यता अभियान में 140 सदस्य बनाए गए तथा 73 सदस्यों के हस्ताक्षर कराए गए। डीसीपी यातायात गणेश प्रसाद शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से आगे भी पुलिस कमिश्नर जी के नेतृत्व में निरंतर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करते हुए वाहन चालकों को जागरूक करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे यातायात माह को सफल बनाने में यातायात पुलिस निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।



प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में कोविड 19 के दृष्टिगत बिना मास्क लगाकर घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में आज दिनांक 24.11.2020 को 1033 व्यक्तियों का चालान किया गया व 103,800/- शमन शुल्क वसूला गया है।